



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1937 (श0)
(सं0 पटना 1272) पटना, सोमवार, 9 नवम्बर 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

4 नवम्बर 2015

सं0 एम1-009/2014-46—निरर्हित घोषित किये गये अभ्यर्थियों की निरर्हता रद्द किये जाने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या— बिहार-वि.स./60/2010 दिनांक 01.10.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव—सह—

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 1 अक्टूबर, 2015/9 आश्विन, 1937 (शक)

सं० बिहार-वि.स./60/2010—यतः, आयोग ने 60-रूपौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में हुए बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री दिलीप जायसवाल, ग्राम-रामपुर परिहट, पो.-चपहरी, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया, बिहार द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए निरर्हत कर दिया था।

और, यतः, उक्त श्री दिलीप जायसवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दिनांक 2-9-2014 दायर की थी और अपनी उस अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरर्हता हटाने के लिए अनुरोध किया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लेने के लिए उपरोक्त आवेदक की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने का निर्णय लिया और उसकी सुनवाई करके अपने आदेश दिनांक 1 अक्टूबर, 2015 के द्वारा यह निर्णय लिया कि उक्त श्री दिलीप जायसवाल पर दिनांक 26 फरवरी, 2014 के आदेश सं. 76/बिहार-वि.स./2010 के द्वारा आरोपित निरर्हता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी।

अतः, अब, आयोग के तारीख 26 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 20 पर स्थित श्री दिलीप जायसवाल का नाम 1 अक्टूबर, 2015 से हटा दिया जाएगा।

आदेश से,
आर० के० श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 1st October, 2015/
9 Ashvina, 1937 (SAKA)*

No.BR-LA/60/2010—WHEREAS, the Commission, vide its Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February 2014 had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, **Sh. Dilip Jaiswal, Vill-Rampur Parihat, P.O-Chapahri, PS_Rupauli, Dist-Purnia, Bihar** a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from **60- Rupauli** Assembly Constituency, held in the year 2010, for being chosen as, and for being a member of either House of the People or of the

Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years, for not lodging his account of election expenses in the manner required by law.

AND, WHEREAS, the said **Sh. Dilip Jaiswal** had preferred an appeal dated 2-9-2015 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and had requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal.

AND, WHEREAS, the competent authority decided to give a personal hearing to the aforesaid applicant for deciding the appeal under section 11 of the Representation of People Act, 1951 and having heard him, has decided, vide its order dated 1st **October, 2015** that the disqualification imposed on said **Sh. Dilip Jaiswal**, vide Order No. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014 shall be revoked with immediate effect.

NOW, THEREFORE, the name of **Sh. Dilip Jaiswal**, appearing at Serial no. 20 of the Table appended with Commission's Order no. 76/BR-LA/2010 dated 26th February, 2014, shall be omitted w.e.f. 1st **October, 2015**.

By Order

R.K. SRIVASTAVA,

PRINCIPAL SECERETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1272-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>